

विचार बिन्दु

अकेलापन कई बार अपने आप से सार्थक बातें करता है। वैसी सार्थकता भीड़ में या भीड़ के चिंतन में नहीं मिलती। –**राजेंद्र अवस्थी**

वनों की प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्राकृतिक जलवायु समाधान अपरिहार्य है

वन प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य है कि वन किस हद तक प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के प्रभावों से उबर सकते हैं। यह क्षमता उन वनों को परिभाषित करती है जो संकटों का सामना कर पुनः अपनी पारिस्थितिकीय स्थिति को बनाए रखते हैं। प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग किया जाता है जैसे जैव विविधता, वनस्पति संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। प्रतिरोधक क्षमता वाले उष्णकटिबंधीय वन वे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, सूखा, आग आदि के बाद भी तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में अमेज़न वर्षावन को देखा जा सकता है जो कई दशकों से कई प्रकार के संकटों का सामना करते हुए भी अपने जैव विविधता को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। इन वनों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न संकेतकों का उपयोग करते हैं जैसे वनस्पति का घनत्व, प्रजातियों की विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यक्षमता।

वन प्रतिरोधक क्षमता का महत्व कई कारणों से है। सबसे पहले, यह वन संरक्षण में सहायक होती है। प्रतिरोधक वनों का संरक्षण करने से अन्य वनों की तुलना में इनकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखना आसान होता है। वन बहाली में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रतिरोधक वनों को बहाल करने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। प्रतिरोधक वनों का महत्व कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भी होता है। ये वन जल चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही, प्रतिरोधक वनों में फूलों और जीवों की विविधता अधिक होती है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलती है। कार्बन अवशोषण में भी प्रतिरोधक वनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये वन अधिक कार्बन को अवशोषित कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार, प्रतिरोधक वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु समाधान के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

स्थिरता की दृष्टि से भी प्रतिरोधक वन महत्वपूर्ण होते हैं। ये वन न केवल पर्यावरण को संरक्षित करते हैं बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया के वन स्थानीय समुदायों को खाद्य, जल और औषधीय पौधों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, पर्यटन के माध्यम से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, जैव विविधता को बनाए रखना आवश्यक है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। दूसरा तरीका है वनस्पति संरचना को बनाए रखना, जिससे वन की स्थिरता बढ़ती है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। वे वन संरक्षण और बहाली में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

वनों और वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बचाना एक प्राकृतिक जलवायु समाधान है। ये वन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी समर्थन प्रदान करते हैं। इसलिए, इन वनों का संरक्षण और बहाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। वन संरक्षण और बहाली के लिए नीतियों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण हैं, जिससे लोग वनों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में भाग ले सकें। इस प्रकार, हम एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

वन प्रतिरोधक क्षमता, जिसे पारिस्थितिक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में भी समझा जाता है, वन पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र की उस क्षमता को दर्शाती है जो उसे प्राकृतिक और मानवजनित खतरों से उबरने में सक्षम बनाती है। जैसा कि पहले कहा गया है, इसमें तूफान, सूखा, आग, कीट संक्रमण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। प्रतिरोधक क्षमता के बिना, वन पारिस्थितिकी तंत्र इन खतरों के सामने अस्थिर हो सकते हैं और अपनी पारिस्थितिकीय कार्यक्षमताओं को खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेज़न के वर्षावन जो कि विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वनों में से एक है,ने कई प्राकृतिक और मानवजनित खतरों का सामना किया है। इसके बावजूद, अपनी जैव विविधता को संरक्षित रखा है और यही इसकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता का संकेत है।

प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें जैव विविधता, वनस्पति संरचना, और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं शामिल हैं। जैव विविधता प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि विविध प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। वनस्पति संरचना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सुसंगठित वन संरचना पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन ने दिखाया कि उच्च जैव विविधता वाले वन सूखा के प्रभावों से तेजी से उबरते हैं। प्रतिरोधक वनों का संरक्षण वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह संरक्षण न केवल जैव विविधता को बनाए रखता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को भी बनाए रखता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। वन बहाली के संदर्भ में, प्रतिरोधक वनों को बहाल करने के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और ये तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का लक्ष्य करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, मध्य अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में वन बहाली परियोजनाओं ने दिखाया है कि उच्च प्रतिरोधकता वाले वन तेजी से पुनः स्थिर हो जाते हैं और अधिक कार्बन का अवशोषण करते हैं।

कार्बन अवशोषण की दृष्टि से, प्रतिरोधक वन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं और इसे दीर्घकालिक रूप से संग्रहीत करते हैं। यह कार्बन अवशोषण प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव कम होता है। एक अध्ययन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय वनों में कार्बन संग्रहण की क्षमता उच्च होती है, विशेषकर जब वे उच्च जैव विविधता वाले होते हैं। इस प्रकार, प्रतिरोधक वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु परिवर्तन को कम करने में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

स्थानीय समुदायों की आजीविका के संदर्भ में भी प्रतिरोधक वनों का महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये वन स्थानीय समुदायों को खाद्य, जल, और औषधीय पौधों की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया के वनों में रहने वाले समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा, पर्यटन भी इन वनों से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। प्रतिरोधक वनों का संरक्षण स्थानीय समुदायों को स्थायी आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, जैव विविधता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति वन को विभिन्न संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है। दूसरा तरीका है वनस्पति संरचना को बनाए रखना, जिससे वन की स्थिरता बढ़ती है। तीसरा तरीका है स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदाय वन संरक्षण और बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग वनों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में सक्रिय भाग ले सकें।

अंत में, उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। वन संरक्षण और बहाली के लिए नीतियों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, जिससे लोग वनों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में भाग ले सकें। इस प्रकार, हम एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

वन प्रतिरोधक क्षमता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वन पारिस्थितिक तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रतिरोधक क्षमता का महत्व न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। जैव विविधता, वनस्पति संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रतिरोधक क्षमता के मुख्य घटक हैं। उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण और बहाली जलवायु परिवर्तन को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों और नीतियों के माध्यम से हम उष्णकटिबंधीय वनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

वन प्रतिरोधक क्षमता उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र में विनाशकारी परिवर्तनों से बचाव कर सकती है। परिवर्तन सामान्य है, लेकिन यह अचानक और कठोर विपरीत स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। हालांकि विभिन्न घटनाएं ऐसे परिवर्तनों को उत्प्रेरित कर सकती हैं, अध्ययन बताते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता की हानि आमतौर पर वैकल्पिक स्थिति की ओर ले जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों के सतत प्रबंधन की रणनीतियों को प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने पर केंद्रित होना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और जैव विविधता को बनाए रखेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा।

—**अतिथि सम्पादक, डॉ. दीप नारायण पाण्डेय (भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर) (यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण' के सिद्धांत से प्रेरित हैं)**

अब तो पक्की है राजस्थानी भाषा को मान्यता



राजेन्द्र जोशी

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने का मन जापान की धरती पर प्रधानमंत्री ने बना लिया होगा। राजस्थानी संस्कृति एवं भाषा की झलक पिछले दिनों प्रधानमंत्री कि जापान यात्रा के दौरान खुद उन्होंने देखी। प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के आग्रह पर जब प्रस्तुति दी तो संभवत हमारे प्रधानमंत्री को यह अहसास हो गया होगा कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का फलक कितना बड़ा है। राजस्थानी भाषा दुनिया के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाने के अतिरिक्त वहां की संस्कृति में स्थान बना चुकी है। आधुनिक काल में राजस्थानी भाषा- संस्कृति की गूंज सीमाओं के पार सुनाई और स्पष्ट दिखाई देती है। राजस्थानी भाषा के लिए हमारा वह दावा उस समय सच साबित हो गया। दुनिया-भर में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली और समझने वाली राजस्थानी भाषा को लगभग 12 करोड़ लोग बोलते हैं। जिसे प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत के दौरान खुद देख लिया। संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए अब प्रधानमंत्री को किसी फाइल अथवा साक्ष्य की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विदेशी धरती पर जापानी कलाकारों ने जब स्वागत प्रारंभ किया और कलाकारों ने खुद को राजस्थानी मधु के नाम से परिचित कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तब प्रधानमंत्री ने खुद उनसे पूछा कि क्या आप गा सकते हैं तो उन्होंने यह कहा कि हम राजस्थानी लोकगीत सुना सकते हैं, तो स्थानीय कलाकारो ने राजस्थानी लोक गीत सुनाया। भक्ति रस से डुबे जब प्रधानमंत्री के कानों में यह सुनाई दिया की “ह्दारा सतगुरु आंगन आया रे मैं वारी जाऊं रे” राजस्थानी परंपरा में मेहमान कि भगवान से तुलना को जीवंत किया। यह गीत राजस्थान में इस गीत के माध्यम से अतिथि के घर आने से उन्हें देव तुल्य मानकर स्वागत सत्कार किया जाता है। और इस भावना को इस गीत में जापान की भूमि पर स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में गाया।

कामाख्या मंदिर: जहां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है



मिश्रीलाल पंचार

असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या माता मंदिर आज भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपनी विशेषताओं के प्रसिद्ध पहुंचा। भारत के इक्यावन शक्ति पीठों में शामिल इस मंदिर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाल ही में राजस्थान के पत्रकारों का एक दल यहां मन्दिर के दर्शन को पहुंचा तथा इस शक्ति पीठ के आसपास के स्थलों का जायजा लिया। कामाख्या माता का यह मंदिर भारत में अपने आप में अनुदा मन्दिर है। यहां पर योनि की पूजा अर्चना की जाती है। यहां प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में माता के भक्त दर्शन करने पहुंचते है। कहते हैं यहां माता आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस मन्दिर के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ माँ सती की योनि का भाग गिरा था। कामाख्या मन्दिर इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है, जो माता सती की योनि रूप की पूजा के लिए जाना जाता है। यह मंदिर गुवाहाटी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में माँ सती की योनि रूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सती देवी देवी देवताओं को बुलाया मगर अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने विचार किया कि मेरे पिताजी यज्ञ का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सभी

सात समंदर पार भी मीठी और अपनत्व की राजस्थानी भाषा भारत का डंका बजा रही है । उन जापानी कलाकारों को जब यह पता चलेगा कि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, उन लोकगीतों के माध्यम से हम आय अर्जित करते हैं उस भाषा को भारत में भी मान्यता नहीं है। सच तो यह है की राजस्थान में कभी राज-काज की भाषा भी राजस्थानी रही है। आजादी के समय राजस्थानी भाषा ने अपना बलिदान देकर हिंदी के हित की बात की थी। भाषाएं लुप्त ना हो, भाषाएं लुप्त होती है तो संस्कृति बिगड़ जाती है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति बहुत ही समर्थ भाषा रही है और आज भी है। राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और सैकड़ो विद्यालयों में राजस्थानी पढ़ाई जाती है। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य और हर जिले में राजस्थानी बोलने वाला परिवार मिल जाएगा। राजस्थानी अब क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं रही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ-साथ अब तो विश्व के प्रत्येक देश में आपका स्वागत सत्कार के लिए तैयार खड़ी है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा की राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अध्यादेश जारी करावे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपको भ्रम में रखा जा रहा है और यह मिथ्या बात फैलाई जाती है कि

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता से हिंदी कमजोर होगी एवं अन्य प्रांतीय भाषाओं को मान्यता मिल जाती है तो हिंदी कमजोर होती जाएगी। जबकि आपने जापान में जो देखा, जापानी कलाकारों ने राजस्थानी भाषा और संस्कृति को कितना समझ किया है। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है तो हिंदी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री देश-विदेश में करोड़ों लोग राजस्थानी को प्यार करते हैं । विदेशी धरती पर भी आपने देख लिया सुन लिया मुझे लाता है कि अब जाचने परखने की कतई जरूरत नहीं है, राजस्थानी जैसी जुनी भाषा को मान्यता नहीं देने का कोई तर्कसंगत मुद्दा सरकार या अन्य भाषाओं की वकालत करने वालों के पास बचा नहीं है। राजस्थानी भाषा हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। देश को आजादी दिलाने में राजस्थानी भाषा के रचनाकारो का महत्वपूर्ण योगदान रेखांकित किया गया है। 1८५7 की क्रांति में राजस्थानी कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम बात करें तो मरुस्थल के कवि शंकरदान सामीर ने राजस्थानी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। ऐसे अनेक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राजस्थानी कविताओं, गीतों और राजस्थानी भाषा के दोहो के माध्यम से आजादी की लड़ाई में अद्वितीय योगदान दिया था। भारत को आजाद करने में राजस्थानी भाषा के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया

नहीं जा सकता। देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने हेतु शंकर दान सामीर जैसे क्रांतिकारी कवि सामीर 1८५7 में तन-मन-धन से शामिल होते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा राजस्थानी कवि इस संघर्ष को वह पूरी तरह समझने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1८५7 में उन्होंने कहा था कि यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, देशवासियों को संबोधित करते हुए सामीर कहा कि यह अवसर छूट न जाए। भारत की आजादी के लिए अगर यह मौका छूट गया तो फिर से इस आंदोलन को खड़ा करना उतना ही मुश्किल होगा जैसे एक बार हिरण कूदने से छूट जाता है फिर संतुलन वापस नहीं आ सकता। उन्होंने लिखा था:— “आयो औसर आज, गरब गौरां रौ गावण आयो औसर आज, रीत राखण हिंदवाणी आयो औसर आज, विकट रण खाव बजाणी फाळ हिरण चुक्यां फटक, पाछी फाळ न पावसी आजाद हिन्द करवा अवर, औसर इच्छी न आवसी।” राजस्थानी भाषा का विपुल साहित्य है और इसका अपना शब्दकोश और विपुल मात्रा में समर्थ परंपरा के अनेक उदाहरण राजस्थानी भाषा की परंपरा में मिलेंगे। —**राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद-साहित्यकार**

नेत्रहीन विष्णुराम के लिये रोशनी की किरण लेकर आया “ग्रामीण सेवा शिविर”

विष्णुराम को 20 वर्ष के बाद मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र मिले

- घुमन्तू पहचान प्रमाण पत्र और घुमन्तु आवास योजना का भी लाभ मिला**
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं पालनहार योजना से लाभान्वित करवाने का आश्वासन भी मिला**

दिलायी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी ने विष्णुराम को दीपवली से पूर्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं पालनहार योजना से लाभान्वित करवाने का आश्वासन भी दिया।

शिविर में एक साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर विष्णुराम और उनकी पत्नी तीजो देवी गदगद हो उठी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे।

मेघ	सिंह	धनु
		
व्यक्तिगत/पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न दु:ख हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनि-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।	मानसिक तनाव दूर होने लगेगा। मन:स्थिति में सुधार होगा। परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मनोरंजन के कार्यक्रम बना सकते हैं।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक के हुए कार्य बरने लगेगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।
वृष	कन्या	मकर
		
घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	अपनी कार्य योजना को सीमित करें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा।
मिथुन	तुला	कुंभ
		
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।	आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। कार्य शीघ्रता/सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं रहेगा।
कर्क	वृश्चिक	मीन
		
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बरने लगेगे। संभावित ख़ात से धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्य सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। कार्य शीघ्रता/सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं।	परिवार में चल रही स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।